



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1111 राँची, बुधवार,

12 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2018

संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8068-- श्री सुनील कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 601/03, गृह जिला- राँची) निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8069-- श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 685/03, गृह जिला- पूर्वी चम्पारण) अपर निदेशक खाद्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची (धारित पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित) को अगले आदेश तक निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8070--** श्री गिरिजा शंकर प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 741ए/03, गृह जिला- भोजपुर) उप निदेशक, रिनपास, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक, प्रशासन, रिम्स, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. श्री प्रसाद अपने कार्यों के साथ उप निदेशक (प्रशासन) रिम्स, राँची के अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे।

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8071--** श्री अभिषेक श्रीवास्तव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 757/03, गृह जिला- राँची) उप सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को अपने कार्यों के साथ उप निदेशक, रिनपास, राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8072--** श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 832ए/03, गृह जिला- औरंगाबाद) जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी (अपने वेतनमान में उत्क्रमित पद पर पदस्थापित) को विभागीय अधिसूचना सं०- 7104 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा अधिरोपित पदावनति के दण्ड के पश्चात उनकी सेवा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8073--** श्री अशोक कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला- रामगढ़) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8074--** श्री ओम प्रकाश यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 848/03, गृह जिला- लोहरदगा) उप निदेशक, प्रशासन कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक इनकी सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

**संख्या- 3/पद०-01(ख)-01/2015 का.- 8075--** श्रीमती सुमन पाठक, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला- पलामू) कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सदर (अतिरिक्त प्रभार उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अपने वेतनमान में प्रशासी पदाधिकारी एन०आर०एच०एम०, नामकुम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

11. श्रीमती पाठक अपने कार्यों के साथ उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में यथावत बनी रहेंगी ।
2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे ।
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,  
सरकार के अवर सचिव ।

-----